



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 1983/अग्रहायण 25, 1905  
No. 473] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 1983/AGRAHAYANA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1983

सं. 289/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां. कां. निं. 890(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 116/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 13 मार्च, 1982 को अधिकांत करते हुए, ऐसी जस्ता सिल्लियों को जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं. 26 ख के अन्तर्गत आती है और जिसका प्रयोग जस्ता बूथों के विनिर्माण में किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्योहण्य सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु जहां ऐसा प्रयोग ऐसी जस्ता सिल्लियों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से अन्यत्र किया जाता है वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

1173 GI/83

और यह भी कि ऐसा जस्ता बूथों ऐसी कालावधि के अन्दर जो जस्ता सिल्लियों का उत्पादन करने वाले कारखाने पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर, विनिर्दिष्ट करे सिल्लियों का उत्पादन करने वाले कारखाने को वापस लौटा दिया जाता है ।

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th December, 1983

No. 289/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 116/82- Central Excises, dated the 13th March, 1982, the Central Government hereby exempts zinc ingots, falling under Item No. 26B

(1)

of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and used in the manufacture of zinc dust, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production of such zinc ingots, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed :

Provided further that such zinc dust is returned to the factory of production of zinc ingots within such period as the Assistant Collector of Central Excise, having jurisdiction over the factory of production of zinc ingots, may specify.

सं० 290/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां० कां० नि० 891 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जस्ता सिलियों से विनिर्मित जस्ता बर्ण को जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मब सं० 26ब के अन्तर्गत आता है और जिसका प्रयोग धनगड़े जस्ता के विनिर्माण में किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उच्चतम संवर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु जहाँ ऐसा प्रयोग ऐसे जस्ता बर्ण का उत्पादन करने वाले कारखाने से अन्यत्र किया जाता है वहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

#### NO. 290/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts zinc dust manufactured out of zinc ingots, falling under Item No. 26B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and used in the manufacture of zinc unwrought, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production of such zinc

dust, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

सं० 291/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां० कां० नि० 892(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 81/83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में क्रम सं० 93 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रतिष्ठियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात्—

"94 सं० 289/83-केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1983,"

95 सं० 290/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1983।"

[कां० सं० 148/3/79-सो० एक्स-4]

आर० के० चन्द्र, उप सचिव

#### NO. 291/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Sl. No. 93 and the entry relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"94 No. 289/83-Central Excises, dated the 16th December, 1983.

95 No. 290/83-Central Excises, dated the 16th December, 1983".

[F. No. 148/3/79-CX.4]

R. K. CHANDRA, Dy. Secy.